



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 02 अगस्त, 2003 ई0

श्रावण 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 956/कृषि-1(41)/2002

देहरादून, 02 अगस्त, 2003

### अधिसूचना

प0 आ0-117

उत्तरांचल राज्य के विशेष भौगोलिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत की गई कृषि विभाग की पुनर्गठन सम्बन्धी अधिसूचना सं0 680/व0ग्रा0वि0-VIII/कृषि/2001, दिनांक 04-10-2001 तथा संशोधित अधिसूचना सं0 782/कृषि/2001, दिनांक 27-10-2001 को अवक्रमित करते हुए प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों को विकास की गति प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि विभाग में उपलब्ध विभिन्न शाखाओं में अन्तर्निहित पदों को पुनर्गठित करते हुए विभाग में 2609 पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-अपर विभागाध्यक्ष/अपर कृषि निदेशक स्तर के 02 पद सृजित किये गये हैं जिसमें से 01 अपर कृषि निदेशक को कृषि निदेशक के साथ मुख्यालय में तथा दूसरे अपर कृषि निदेशक को पौड़ी स्थित अपर निदेशक के कार्यालय में गढ़वाल मण्डल के कार्यों को निस्तारित करने के लिये तैनात किया जायेगा।

3-संयुक्त कृषि निदेशक के 05 पद सृजित किये गये हैं जिसमें से 01 संयुक्त कृषि निदेशक को कुमाऊँ मण्डल के मण्डलीय कार्यालय के मुख्यालय हल्द्वानी में तथा 04 संयुक्त कृषि निदेशक जिनमें से 01 सांख्यिकी विभाग का है, विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तैनात किये जायेंगे।



4-श्रेणी-1 उप निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी स्तर के 18 पद सृजित किये गये हैं, जो क्रमशः 13 जिलों के जिला मुख्यालयों में एवं 04 कृषि विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में तथा 01 मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में तैनात किये जायेंगे। जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के साथ (जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चम्पावत को छोड़कर) एक-एक सहायक निदेशक, कृषि प्रसार की तैनाती की जायेगी।

5-विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियन्त्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से लेखा एवं वित्त नियन्त्रक का एक पद सृजित किया गया है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त सहायक लेखाधिकारी के 02 पद सृजित किये गये हैं, जिन पर भी वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को तैनात किया जायेगा।

6-सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन की 25 इकाइयां सृजित की गई हैं, जिनमें से 23 इकाइयां पूर्व से सृजित हैं तथा 02 नई जलागम इकाइयां जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में तथा दूसरी जनपद चम्पावत के लोहाघाट नामक स्थान में स्थापित की जायेंगी। जलागम प्रबन्धन इकाइयां "प्रोजेक्ट मोड" में होंगी अर्थात् जहां भारत सरकार या अन्य स्रोतों से वित्तीय/परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होगी, उन्हीं जल समेट क्षेत्रों में इन इकाइयों का मुख्यालय शिफ्ट होता रहेगा जनपद स्तर पर ये इकाइयां मुख्य कृषि अधिकारी के नियन्त्रण में रहेंगी।

7-पौध संरक्षण शाखा में कृषि रक्षा अधिकारी के 14 पद सृजित किये गये हैं जिनमें से 13 अधिकारी जिला मुख्यालयों में एवं 01 अधिकारी को विभागाध्यक्ष के मुख्यालय में तैनात किया जायेगा। जनपदों में तैनात कृषि रक्षा अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

8-कुमाऊँ मण्डल के मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा गढ़वाल मण्डल में अपर कृषि निदेशक के साथ 1-1 सहायक निदेशक सामान्य तथा 1-1 सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी की तैनाती की जायेगी।

9-मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में उप निदेशक, कृषि सांख्यिकी के साथ एक सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी की तैनाती की जायेगी।

10-दो राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों पर श्रेणी-2 के 02 पद तथा क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अधिष्ठान हेतु 03 पद सृजित किये गये हैं ये पद पूर्ववत् पौड़ी, मजखाली, श्रीनगर, अल्मोड़ा व रुद्रपुर में यथावत रहेंगे। सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र में श्रेणी-2 का 01 पद रखा गया है जिसका मुख्यालय हल्द्वानी में होगा।

11-विभागाध्यक्ष के मुख्यालय में श्रेणी-2 के 09 अधिकारी तैनात किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय कार्यालयों यथा उप निदेशक (कृषि), कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण पौड़ी व देहरादून, सहायक निदेशक, कृषि विपणन व अपर निदेशक पौड़ी तथा कुमाऊँ मण्डल के मण्डलीय कार्यालयों यथा-उप निदेशक (कृषि), कृषि रक्षा, कृषि सांख्यिकी, कृषि शोध केन्द्र, सहायक निदेशक, कृषि विपणन व उप निदेशक (मू० सं०) अल्मोड़ा के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी क्रमशः मण्डलीय संयुक्त निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल व अपर निदेशक के पूर्व कार्यालय पौड़ी एवं विभागाध्यक्ष के मुख्यालय तथा नवसृजित जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग में समायोजन किया जायेगा :-

- (1) भूमि संरक्षण की दो नई इकाइयां सृजित किये जाने के फलस्वरूप पूर्व इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, अब रखी गई कार्मिकों की संख्या के आधार पर इकाइयों में तैनात वर्ग 1, 2 व 3 के अप्रशिक्षित कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में समायोजित किया जाय।
- (2) वर्तमान कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यरत स्टाफ में से कुछ वरिष्ठ तथा कुछ कनिष्ठ कार्मिकों को नवसृजित जनपदों में बराबर के अनुपात में स्थानान्तरित किया जाय।
- (3) कार्मिकों का समायोजन यथा सम्भव उपलब्ध निकटस्थ स्थानों पर ही किया जाय।
- (4) ऐच्छिक स्थानान्तरण को तभी वरीयता दी जाय, जब उपरोक्त अपनाई जाने वाली व्यवस्था बाधित न हो।



12-विभाग के पुनर्गठन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् उप कृषि निदेशक, उप निदेशक, कृषि रक्षा, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उप निदेशक (भू0 सं0) अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, उप निदेशक, सांख्यिकी, हल्द्वानी, उप कृषि निदेशक, प्रसार, हरिद्वार, उप निदेशक-कम-प्रभारी अधिकारी, शोध केन्द्र, हल्द्वानी तथा सहायक कृषि विपणन अधिकारी, पौड़ी/हल्द्वानी के कार्यालय तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाते हैं। उक्त कार्यालयों के समाप्त होते ही मण्डल स्तर पर अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय अस्तित्व में आ जायेंगे और परियोजना अधिकारी, कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय के रूप में परिणित हो जायेंगे।

13-विभाग को पुनर्गठित किये जाने के पश्चात् जो मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय समाप्त किये गये हैं, में उपलब्ध मशीन, साज-सज्जा, लेनदारी एवं देनदारी का समायोजन निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा।

14-उत्तरांचल कृषि विभाग के संशोधित पुनर्गठन सम्बन्धी अधिसूचना में कृषि निदेशक से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों का विवरण संलग्नक-1, कृषि निदेशालय के लिये रखे गये पदों का विवरण, संलग्नक-2, पौड़ी स्थित अपर कृषि निदेशक तथा हल्द्वानी स्थित संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालयों के पदों का विवरण संलग्नक-3, जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी व कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालयों के पदों का विवरण संलग्नक-4 व 6, जलागम प्रबन्धन की इकाइयों के पदों का विवरण संलग्नक-5, कृषि सांख्यिकी (फसल सर्वेक्षण योजना, सुधार योजना, फसलों के क्षेत्रफल व अनुमान) के पदों का विवरण संलग्नक-7(1), 7(2), 7(3), मुख्य राजस्व कार्यालयों के पदों का विवरण संलग्नक-8, मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना में कृषि विपणन, मण्डी स्तर के पदों का विवरण संलग्नक-9(1), 9(2), मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के पदों का विवरण संलग्नक-10(1), क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के पदों का विवरण संलग्नक-10(2), भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों के पदों का विवरण संलग्नक-11, सम्भागीय कृषि परीक्षण व प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी व चिन्यालीसाँण के पदों का विवरण संलग्नक-12(1), 12(2) तथा बीज परीक्षण प्रयोगशाला, हल्द्वानी के पदों का विवरण संलग्नक-13 पर अंकित करते हुए पदों की संख्या एवं वेतनमान सहित प्रेषित किया जा रहा है।

15-उक्तानुसार कृषि विभाग के निदेशालय, मण्डलीय कार्यालय व जनपदीय कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती/समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

16-कृषि विभाग के कृषि निदेशक/विभागाध्यक्ष के मुख्यालय के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक-1

उत्तरांचल कृषि विभाग के संशोधित पुनर्गठन में सृजित किये गये पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	कृषि निदेशक	18600-22600	01
2.	अपर कृषि निदेशक	14300-18300	02
3.	संयुक्त कृषि निदेशक	12000-16500	05
4.	उप कृषि निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी	10000-15200	18
5.	लेखा एवं वित्त नियंत्रक	10000-15200	01
6.	सहायक निदेशक, श्रेणी-2	8000-13500	68
7.	लेखाधिकारी	8000-13500	02



1	2	3	4
8.	सहायक लेखाधिकारी	6500-10500	03
9.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	6500-10500	01
10.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01
11.	आशुलिपिक ग्रेड-I	5500-9000	02
12.	प्रशासनिक अधिकारी	5500-9000	03
13.	आशुलिपिक ग्रेड-II	5000-8000	05
14.	वरिष्ठ मानचित्रक	5000-8000	04
15.	अ०क०से० वर्ग-1	5000-8000	144
16.	लेखाकार	5000-8000	20
17.	अवर अभियन्ता	5000-8000	54
18.	अ०क०से० वर्ग-2	4500-7000	440
19.	कैम्प सहायक	4500-7000	01
20.	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4500-7000	04
21.	प्रधान लिपिक	4500-7000	16
22.	आशुलिपिक	4000-6000	20
23.	मानचित्रक	4000-6000	26
24.	सहायक लेखाकार	4000-6000	69
25.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	73
26.	अ०क०से० वर्ग-3	3200-4900	742
27.	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	3050-4590	180
28.	वरिष्ठ यांत्रिक कृषि रक्षा	3200-4900	01
29.	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050-4590	22
30.	अनुरेखक	3050-4590	37
31.	वाहन चालक	3050-4590	64
32.	कामदार/लैब सहायक/परिचालक/ वर्गीकरण सहायक	2610-3540	20
33.	चतुर्थ श्रेणी/अर्दली/चपरासी/चौकीदार/ सफाई नायक	2550-3200	560
	योग		2609

संलग्नक-2

कृषि निदेशालय, उत्तरांचल, की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	कृषि निदेशक	18600-22600	01
2.	अपर कृषि निदेशक	14300-18300	01
3.	संयुक्त कृषि निदेशक (जैविक)	12000-16500	01
4.	संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन/अनुश्रवण)	12000-16500	01
5.	संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)	12000-16500	01
6.	संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी एवं फसल बीमा)	12000-16500	01
7.	वित्त एवं लेखा नियंत्रक	10000-15200	01
8.	उप कृषि निदेशक (तकनीकी/सम्प्रेक्षण)	10000-15200	01
9.	उप कृषि निदेशक (प्रशिक्षण/मानव संसाधन)	10000-15200	01
10.	उप कृषि निदेशक (कृषि विपणन)	10000-15200	01
11.	उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)	10000-15200	01
12.	सहायक निदेशक (निवेश)	8000-13500	01
13.	सहायक निदेशक (अभियंत्रण)	8000-13500	01
14.	सहायक निदेशक (कृषि रक्षा/निगरानी)	8000-13500	01
15.	सहायक निदेशक (अनुश्रवण)	8000-13500	01
16.	सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण)	8000-13500	01
17.	सहायक निदेशक (सम्प्रेक्षण)	8000-13500	01
18.	सहायक निदेशक (नियोजन)	8000-13500	01
19.	सहायक निदेशक (कृषि विपणन)	8000-13500	01
20.	सहायक निदेशक (कृषि सांख्यिकी)	8000-13500	01
21.	लेखाधिकारी (वित्त)	8000-13500	01
22.	लेखाधिकारी (सम्प्रेक्षण)	8000-13500	01
23.	सहायक लेखाधिकारी	6500-10500	01
24.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	6500-10500	01
25.	आशुलिपिक ग्रेड-I	5500-9000	01
26.	आशुलिपिक ग्रेड-II	5000-8000	04
27.	आशुलिपिक	4000-6000	06



1	2	3	4
28.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01
29.	प्रशासनिक अधिकारी	5500-9000	01
30.	प्राविधिक सहायक वर्ग-1	5000-8000	03
31.	जलागम प्रबन्धक वर्ग-1	5000-8000	01
32.	वरिष्ठ यांत्रिक सहायक वर्ग-1	5000-8000	01
33.	वरिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी	5000-8000	01
34.	नियोजन सहायक	5000-8000	01
35.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी वर्ग-1 (नियोजन)	5000-8000	01
36.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी वर्ग-1	5000-8000	07
37.	वरिष्ठ मानचित्रक	5000-8000	02
38.	लेखाकार	5000-8000	05
39.	सहायक लेखाकार	4000-6000	11
40.	मानचित्रक	4000-6000	01
41.	उप जलागम प्रबन्धक वर्ग-2	4500-7000	02
42.	कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक (निगरानी)	4500-7000	01
43.	अवर अभियन्ता	5000-8000	02
44.	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक (अन्वेषक-कम-संगणक)	4500-7000	06
45.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सांख्यिकी)	4500-7000	03
46.	प्रधान लिपिक	4500-7000	01
47.	कैम्प सहायक	4500-7000	01
48.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	12
49.	वरिष्ठ यांत्रिक कृषि रक्षा	3200-4900	01
50.	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	52
51.	अनुरेखक	3050-4590	04
52.	वाहन चालक	3050-4590	09
53.	चतुर्थ श्रेणी / चपरासी / अर्दली / चौकीदार / सफाई नायक	2550-3200	39
महायोग			204

नोट: क्रम संख्या 38 पर एक पद कृषि सांख्यिकी की फसलों के क्षेत्रफल और उनके अनुमान लगाने की योजना का सम्मिलित है।

संलग्नक-3

गढ़वाल मण्डल में अपर कृषि निदेशक/कुमांऊ मण्डल में संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	हल्द्वानी	योग
1.	अपर कृषि निदेशक	14300-18300	01	—	01
2.	संयुक्त कृषि निदेशक मण्डलीय	12000-16500	—	01	01
3.	सहायक निदेशक कृषि सांख्यिकी	8000-13500	01	01	02
4.	सहायक निदेशक, सामान्य	8000-13500	01	01	02
5.	सहायक लेखाधिकारी	6500-10500	01	01	02
6.	आशुलिपिक ग्रेड-I	5500-9000	01	—	01
7.	प्रशासनिक अधिकारी	5500-9000	01	01	02
8.	आशुलिपिक ग्रेड-II	5000-8000	—	01	01
9.	प्राविधिक सहायक वर्ग-1	5000-8000	01	01	02
10.	जलागम प्रबन्धक वर्ग-1	5000-8000	01	01	02
11.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी वर्ग-1	5000-8000	01	01	02
12.	वरिष्ठ मानचित्रक	5000-8000	01	01	02
13.	लेखाकार	5000-8000	01	01	02
14.	अवर अभियन्ता	5000-8000	01	01	02
15.	कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक वर्ग-2	4500-7000	01	01	02
16.	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/ अन्वेषक-कम-संगणक	4500-7000	—	15	15
17.	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	02
18.	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	04
19.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	02	02	04
20.	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	06	05	11
21.	अनुरेखक	3050-4590	04	04	08
22.	वाहन चालक	3050-4590	01	01	02
23.	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050-4590	01	01	02
24.	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/अर्दली/ चौकीदार/सफाई नायक	2550-3200	10	10	20
योग			40	54	94



## संलग्नक-4

जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरा दून	टिहरी	पौड़ी	रुद्र-प्रयाग	धर्मोली	उत्तर-काशी
1.	मुख्य कृषि अधिकारी	10000-15200	01	01	01	01	01	01	01
2.	सहायक निदेशक कृषि प्रसार	8000-13500	01	01	01	01	-	01	01
3.	अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक)	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
4.	अपर कृषि प्रसार अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
5.	लेखाकार	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
6.	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
7.	सहायक कृषि विकास अधिकारी	4500-7000	06	06	09	15	04	08	06
8.	बफर प्रमारी	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
9.	बीज विधायन संयंत्र प्रमारी	4500-7000	-	01	-	-	-	-	-
10.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	4500-7000	01	-	-	-	-	-	-
11.	तिलहन निरीक्षक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
12.	आशुलिपिक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	01
13.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	03	03	02	02	02	02	02
14.	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	02	02	02	02	02
15.	सहायक कृषि निरीक्षक	3200-4900	06	06	09	15	04	08	06
16.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	3200-4900	-	01	01	-	01	01	02
17.	कृषि प्रसार सहायक	3200-4900	06	06	09	15	04	08	06
18.	कनिष्ठ लिपिक/क०आ०	3050-4590	04	04	04	05	02	02	02
19.	वाहन चालक	3050-4590	02	02	02	02	01	02	02
20.	ट्रैक्टर चालक	3050-4590	01	-	-	-	-	-	-
21.	बीज विधायन परिचालक	2610-3540	-	01	-	-	-	-	-
22.	चतुर्थ श्रेणी/अर्दली/ चपरासी/चौकीदार/ सफाई नायक	2550-3200	26	26	24	36	16	24	21
योग			66	67	71	101	44	66	58



क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	रूधमसिंह नगर	नैनी-ताल	अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौरा-गढ़	चम्पा-वत	योग
1.	मुख्य कृषि अधिकारी	10000-15200	01	01	01	01	01	01	13
2.	सहायक निदेशक कृषि प्रसार	8000-13500	01	01	01	-	01	-	10
3.	अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक)	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
4.	अपर कृषि प्रसार अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
5.	लेखाकार	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
6.	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
7.	सहायक कृषि विकास अधिकारी	4500-7000	07	08	09	05	08	04	95
8.	बफर प्रमारी	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
9.	बीज विधायन संयंत्र प्रमारी	4500-7000	-	01	-	-	-	-	02
10.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	4500-7000	01	-	-	-	-	-	02
11.	तिलहन निरीक्षक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
12.	आशुलिपिक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	13
13.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	02	02	02	02	02	03	29
14.	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	02	02	02	02	26
15.	सहायक कृषि निरीक्षक	3200-4900	07	08	09	05	08	04	95
16.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	3200-4900	-	01	01	-	01	-	09
17.	कृषि प्रसार सहायक	3200-4900	07	08	09	05	08	04	95
18.	कनिष्ठ लिपिक/क०आ०	3050-4590	02	03	04	02	03	04	41
19.	वाहन चालक	3050-4590	01	02	02	01	01	02	22
20.	ट्रैक्टर चालक	3050-4590	01	-	-	-	-	-	02
21.	बीज विधायन परिचालक	2610-3540	-	01	-	-	-	-	02
22.	चतुर्थ श्रेणी/अर्दली/चपरासी/चौकीदार/सफाई नायक	2550-3200	22	25	27	17	25	19	308
योग			61	70	74	47	67	50	482

## संलग्नक-5

## जलागम प्रबन्ध इकाइयों की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	टिहरी	रुद्र-प्रयाग	चमोली	उत्तर-काशी	ऊधमसिंह नगर
1.	सहायक निदेशक जलागम	8000-13500	01	01	01	01	01	01
2.	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01
3.	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02
4.	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04
5.	मानचित्रक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
6.	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16	16	16
7.	अनुरेखक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
8.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
9.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	02	02	02	02	02
10.	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01
11.	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
12.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04
योग			35	35	35	35	35	35

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरा-गढ़	सतपुली	कोटद्वार
1.	सहायक निदेशक जलागम	8000-13500	01	01	01	01	01	01
2.	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01
3.	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02
4.	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04
5.	मानचित्रक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
6.	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16	16	16
7.	अनुरेखक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
8.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
9.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	02	02	02	02	02
10.	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01
11.	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
12.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04
योग			35	35	35	35	35	35





## संलग्नक-6

## जनपद स्तर पर वनस्पति संरक्षण (कृषि रक्षा) के सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रुद्रप्रयाग	धमोली	उत्तरकाशी
1.	कृषि रक्षा अधिकारी	8000-13500	01	01	01	01	01	01	01
2.	जीवनाशी प्रबन्धन प्रमारी वर्ग-1	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
3.	वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्धन सहायक	4500-7000	07	07	10	16	05	09	07
4.	आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग-3	3200-4900	06	06	09	15	04	08	06
5.	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050-4590	02	02	02	02	01	01	01
योग			17	17	23	35	12	20	16

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल	अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	योग
1.	कृषि रक्षा अधिकारी	8000-13500	01	01	01	01	01	01	13
2.	जीवनाशी प्रबन्धन प्रमारी वर्ग-1	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
3.	वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्धन सहायक	4500-7000	08	09	10	06	09	05	108
4.	आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग-3	3200-4900	07	08	09	05	08	04	95
5.	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050-4590	02	02	02	01	01	01	20
योग			19	21	23	14	20	12	249

## संलग्नक-7(1)

## कृषि सांख्यिकी (फसल सर्वेक्षण योजना) में जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रुद्रप्रयाग	धमोली	उत्तरकाशी
1.	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
2.	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक-कम-संगणक	4500-7000	-	-	03	04	-	02	02
3.	राजस्व निरीक्षक	4500-7000	03	01	-	-	-	-	-
4.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	03	01	-	-	-	-	-
योग			07	03	04	05	01	03	03



क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	योग
1.	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
2.	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक / अन्वेषक-कम-संगणक	4500-7000	-	01	02	01	03	-	18
3.	राजस्व निरीक्षक	4500-7000	06	03	-	-	-	-	13
4.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	06	03	-	-	-	-	13
योग			13	08	03	02	04	01	57

संलग्नक-7(2)

कृषि सांख्यिकी सुधार योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	ऊधमसिंह नगर	योग
1.	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000-8000	01	01	02

संलग्नक-7(3)

कृषि सांख्यिकी फसलों के क्षेत्रफल और उनके अनुमान लगाने की योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	देहरादून	नैनीताल	योग
1.	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000-8000	01	01	02

संलग्नक-8

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून के अधिष्ठान में कृषि सांख्यिकी योजना के अन्तर्गत सृजित पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पद
1.	उप निदेशक, कृषि सांख्यिकी	10000-15200	01
2.	सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी	8000-13500	01
3.	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1	5000-8000	04
4.	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक वर्ग-2	4500-7000	02
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सांख्यिकी)	4500-7000	01
6.	आशुलिपिक	4000-6000	01
7.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02
8.	वाहन चालक	3050-4590	01
9.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04
योग			17

## संलग्नक-9(1)

मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के जिलेवार सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रुद्रप्रयाग	चमोली	उत्तरकाशी
1.	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक	5000-150-8000	01	01	-	-	-	-	-
2.	ज्येष्ठ रसायनज्ञ	5000-150-8000	-	01	-	-	-	-	-
3.	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-3950-80-4590	-	01	01	01	-	01	01
4.	वर्गीकरण निरीक्षक	4500-125-7000	-	-	-	-	-	-	-
5.	सहायक वर्गीकरण निरीक्षक	3200-85-4900	-	01	-	-	-	-	-
6.	कृषि विपणन सहायक	2610-60-3150-65-3540	01	01	-	-	-	-	-
7.	वर्गीकरण सहायक	2610-60-3150-65-3540	-	01	-	-	-	-	-
8.	लैब सहायक	2610-60-3150-65-3540	-	01	-	-	-	-	-
9.	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	01	01	-	-	-	-	-
योग			03	08	01	01	-	01	01

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	योग
1.	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक	5000-150-8000	01	01	-	-	-	-	04
2.	ज्येष्ठ रसायनज्ञ	5000-150-8000	-	01	-	-	-	-	02
3.	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-3950-80-4590	-	01	01	-	01	-	08
4.	वर्गीकरण निरीक्षक	4500-125-7000	01	-	-	-	-	-	01
5.	सहायक वर्गीकरण निरीक्षक	3200-85-4900	-	01	-	-	-	-	02
6.	कृषि विपणन सहायक	2610-60-3150-65-3540	01	01	-	-	-	-	04
7.	वर्गीकरण सहायक	2610-60-3150-65-3540	01	01	-	-	-	-	03
8.	लैब सहायक	2610-60-3150-65-3540	-	01	-	-	-	-	02
9.	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	-	-	-	-	-	-	02
योग			04	07	01	-	01	-	28



संलग्नक-9(2)

मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के मण्डी स्तर के सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	विकासनगर	ऋषिकेश	कोटद्वार	रामनगर	किष्का	सितारगंज	काशीपुर
1.	वर्गीकरण निरीक्षक	4500-7000	-	-	-	01	01	-	01
2.	सहायक वर्गीकरण	3200-4900	01	01	01	-	-	01	-
3.	वर्गीकरण सहायक	2610-3540	01	-	01	01	01	01	01
योग			02	01	02	02	02	02	02

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	गढ़पुर	खटीमा	बाजपुर	मंगलौर	रुड़की	योग
1.	वर्गीकरण निरीक्षक	4500-7000	-	-	-	01	01	05
2.	सहायक वर्गीकरण	3200-4900	01	01	01	-	-	07
3.	वर्गीकरण सहायक	2610-3540	01	01	01	-	-	09
योग			02	02	02	01	01	21

संलग्नक-10(1)

जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रुद्रप्रयाग	बमोली	उत्तरकाशी
1.	प्रयोगशाला प्रभारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
2.	मृदा विश्लेषक	4500-7000	02	02	02	02	02	02	02
3.	सहायक मृदा विश्लेषक	3200-4900	02	02	02	02	02	02	02
4.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	03	03	03	03	03	03	03
योग			08	08	08	08	08	08	08

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	रुम्पावत	योग
1.	प्रयोगशाला प्रभारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
2.	मृदा विश्लेषक	4500-7000	02	02	02	02	02	02	26
3.	सहायक मृदा विश्लेषक	3200-4900	02	02	02	02	02	02	26
4.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	03	03	03	03	03	03	39
योग			08	08	08	08	08	08	104

## संलग्नक-10(2)

क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	श्रीनगर	अल्मोड़ा	रुद्रपुर	योग
1.	सहायक निदेशक	8000-13500	01	01	01	03
2.	विश्लेषक	5000-8000	01	01	01	03
3.	सहायक विश्लेषक	4500-7000	02	02	02	06
4.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	02	02	06
5.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	12
	योग		10	10	10	30

## संलग्नक-11

दो राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	मजखाली	योग
1.	केन्द्र प्रभारी	8000-13500	01	01	02
2.	प्रशिक्षक	5000-8000	05	05	10
3.	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	02
4.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	02
5.	प्रयोगशाला सहायक	3200-4900	04	04	08
6.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	03	03	06
7.	वालक	3050-4590	01	01	02
8.	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ अर्दली/चौकीदार	2550-3200	04	06	10
	योग		20	22	42

## संलग्नक-12(1)

हल्द्वानी में सम्मागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र के लिये सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	योग
1	2	3	4
1.	सहायक निदेशक (प्रदर्शन)	8000-13500	01
2.	वरिष्ठ शोध सहायक सांख्यिकी/ वनस्पति/शष्य	5000-8000	04
3.	कनिष्ठ शोध सहायक वर्ग-2	4500-7000	06
4.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक वर्ग-2	4500-7000	01
5.	सहायक लेखाकार	4000-6000	01
6.	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01



1	2	3	4
7.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02
8.	ट्रेक्टर चालक	3050-4590	01
9.	प्रयोगशाला परिचर	2550-3200	06
10.	चौकीदार	2550-3200	01
योग			24

संलग्नक-12(2)

कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) के लिये सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	योग
1.	वरिष्ठ शोध सहायक वर्ग-1	5000-8000	01
2.	शोध सहायक वर्ग-2	4500-7000	02
3.	कनिष्ठ शोध सहायक वर्ग-3	3200-4900	03
4.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	01
5.	चतुर्थ श्रेणी / चौकीदार / चपरासी / हलवाह	2550-3200	04
योग			11

संलग्नक-13

बीज परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी के लिये सृजित पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	योग
1.	प्रभारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला वर्ग-1	5000-8000	01
2.	बीज परीक्षक वर्ग-2	4500-7000	01
3.	सहायक बीज परीक्षक वर्ग-3	3200-4900	02
4.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	01
5.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	02
योग			07

आज्ञा से,

बी० पी० पाण्डेय,  
सचिव।